



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]
No. 247]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 30, 2006/कार्तिक 8, 1928
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2006/KARTIKA 8, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2006

सं. 67 (आर ई-2006)/2004—2009

फा. सं. 01/87/171/00002/एम 07/डीईएस-8.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 2004—2009 में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन/शुद्धिकरण और विलोपन करते हैं।

2. समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-2) 2004—2009 में यथा निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'क' में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/परिवर्धन/विलोपन/शुद्धियाँ की गई हैं।

3. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएंगे :-

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं. क 3625 पर मौजूदा सिओन प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार क्रम सं. क 3626 पर एक नई सिओन प्रविष्टि जोड़ी गई है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक "क"

संशोधन/शुद्धियां

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	सन्दर्भ	संशोधन/परिवर्धन/विलोपन/शुद्धियां
1	2	3	4
	क 11	रसायन उत्पाद क्रम संख्या क-97 पर सिआन	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 97	कैफीन	1 किग्रा.	1. मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड	0.93 किग्रा.
			2. सोडियम साइनाईड	0.49 किग्रा
			3. एमआईबीके	0.35 किग्रा
			4. एसिटिक एनहाइड्राईड	1.37 किग्रा
			5. सोडियम नाइट्राइट	0.64 किग्रा
			6. फार्मिक एसिड	0.48 किग्रा
			7. डाईमेथिल यूरिया अथवा	0.83 किग्रा
			1. 1,3-डाईमेथिल जैन्थ्राईन सोडियम साल्ट (कच्चा सोडियम थीओफीलीन)	1.38 किग्रा
			2. एक्टिवेटेड कार्बन	0.100 किग्रा

2	क 43	रसायन उत्पाद क्रम संख्या क-420 पर सिआन	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-
---	------	---	--

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क420	थीओफीलीन	1 किग्रा.	1. मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड	0.93 किग्रा.
			2. सोडियम साइनाईड	0.49 किग्रा
			3. एमआईबीके	0.35 किग्रा
			4. एसिटिक एनहाइड्राईड	1.37 किग्रा
			5. सोडियम नाइट्राईट	0.64 किग्रा
			6. फार्मिक एसिड	0.48 किग्रा
			7. डाईमेथिल यूरिया अथवा	0.83 किग्रा
			1. 1,3-डाईमेथिल जैन्थाईन सोडियम साल्ट (कच्चा सोडियम थीओफीलीन)	1.38 किग्रा
			2. एक्टिवेटेड कार्बन	0.100 किग्रा

3	क 43	रसायन उत्पाद क्रम संख्या क-424 पर सिआन	क्रम सं.1 पर आयात मद '2-मेथिल, 4,5 नाइट्रो इमिडाजोल' के विवरण को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "2-मेथिल, 5 नाइट्रो इमिडाजोल"
---	------	---	---

4.	क 143	रसायन उत्पाद : क्रम सं० क 1709 पर सिआन	<p>निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : “विभिन्न डायमैन्ड्स के रबड़ होज़ जिनका रबड़ का नैट कान्टेन्ट 0.49 मी.टन से अधिक न हो।”</p> <p>2. निम्नलिखित पाद टिप्पणियाँ सियॉन प्रविष्टि के नीचे रखी जाएँगी :</p> <p>टिप्पणी 1: निर्यात के रबड़ कान्टेन्ट प्रति मी.टन के वेरिएशन के मामले में, 5 प्रतिशत वेस्टेज़ के साथ आयात मद सं० 1 की अनुमति होगी। क्रम सं० 2 से 6 आयात मदों की मात्रा निम्नलिखित फार्मूले से अनुमत की जा सकती है :</p> <p>ए एक्स 0.49/बीएमटी</p> <p>जहाँ “ए” = उपर्युक्त सियॉन के अन्तर्गत निर्यात के एक मी.टन के लिए अनुमत मात्रा</p> <p>जहाँ “बी” = निर्यात मद के प्रति मी.टन मी.टन में रबड़ का नैट कान्टेन्ट</p> <p>टिप्पणी 2 : जहाँ रबड़ होज़ पॉलिएस्टर फैब्रिक के साथ रिइन्फोर्सड है। पॉलिएस्टर फिलामेन्ट थान निर्यात में 1.05 मी.टन प्रति मी.टन के आधार पर अनुमत होगा।</p> <p>टिप्पणी 3 : जहाँ आवेदक रबड़ और रसायनों के बजाय रबड़ कम्पाउन्ड का आयात करना चाहता है, वहाँ निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाएँगे :-</p> <p>ए. निर्यात मद में रेलिवेन्ट रबड़ कम्पाउन्ड - 1.05 मी.टन/मी.टन कान्टेन्ट</p>
----	-------	--	---

			बी. रेलिवेन्ट डेनियर का पॉलिस्टर फिलामेन्ट यार्न - निर्यात मद में 1.05 मी.टन/ मी.टन कान्टैन्ट
5.	क 170	रसायन उत्पाद क्रम सं० क 1962 पर सिआन	सियाँन प्रविष्टि का क्रम सं० 1 पर आयात मद और मात्रा अर्थात् क्रूड रेपसीड फैटी एसिड - 1.145 किग्रा. निम्नानुसार संशोधित की जाती है :- “1(क) रेपसीड फैटी - 1.145 एसिड किग्रा. या 1(ख) रेपसीड ऑयल - 1.179 किग्रा.”
6.	ग 121	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग 948 पर सिआन	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “प्लास्टिक इन्जैक्शन/एक्स्ट्रूजन मोल्ड/डाइज़/कैविटीज़/पन्च/ हाऊसिंग/एलॉय स्टील/टूल एटील से बने इन्सर्ट्स”
7.	ग 173	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग 1289 पर सिआन	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 6 प्रतिशत की मौजूदा मूल्य सीमा के भीतर आयात मदों की क्रम सं० 6 पर विविध मदों की सूची में निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी : “ल्यूब्रीकेटिंग ऑयल ”
8.	ग 173	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग 1290 पर सिआन	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 6 प्रतिशत की मौजूदा मूल्य सीमा के भीतर आयात मदों की क्रम सं० 6 पर विविध मदों की सूची में निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी : “ल्यूब्रीकेटिंग ऑयल ”
9.	ग 174	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग 1291 पर सिआन	निम्नलिखित मद को निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 6 प्रतिशत के मौजूदा मूल्य सीमा के भीतर आयात मदों के क्रम सं० 6 पर विविध मदों की सूची में जोड़ा गया है : “लुब्रिकेटिंग आयल ”

10.	ग 174	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग 1292 पर सिआन	निम्नलिखित मद को निर्यात के पोस्ट पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 6 प्रतिशत के मौजूदा मूल्य सीमा के भीतर आयात मदों के क्रम सं० 6 पर विविध मदों की सूची में जोड़ा गया है : “ लुब्रिकेटिंग आयल ”
-----	-------	--	--

अनुलग्नक “ख”

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मात्रा	अनुमत मात्रा
क्र 3626	3ए 7बी डाई हाइड्राक्सी 5बी कोलान 24-ओआईसी एसिड	1 किग्रा.	1) 3ए हाइड्राक्सी-7 कीटो 5बी कोलान 24 ओआईसी एसिड 2) सोडियम मेटल 3) सेकण्डरी बूटेनाल	1.328 किग्रा. 1.86 किग्रा. 7.17 किग्रा.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th October, 2006

No. 67 (RE-2006)/2004—2009

F. No. 01/87/171/00002/AM 07/DES-VIII.—In exercise of the powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 and Paragraph 1.1 of Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/additions/deletions/corrections in the Handbook of Procedures, Vol. 2, 2004—2009, as amended from time to time.

2. In the statement of Standard Input Output Norms (SION) as contained in the Handbook of Procedures (Vol.2), 2004-2009, as amended from time to time, the amendments/additions/deletions/corrections at appropriate places as mentioned in ANNEXURE "A" to this Public Notice are made.

3. In the statement of Standard Input Output Norms (SION), the following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing SION entry at Sl.No.A-3625, new SION entry at Sl.No. A-3626 is added as per ANNEXURE "B" to this Public Notice.

This issues in public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade

Annexure "A"

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Additions/Deletions/Corrections
1	2	3	4

1.	A-11	Chemical Products: SION at Sl.No.A97	The norms covered by this entry is corrected to read as under: -
----	------	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A 97	Caffeine	1 kg	1. Mono Chloro Acetic Acid 2. Sodium Cyanide 3. MIBK 4. Acetic Anhydride 5. Sodium Nitrite 6. Formic Acid 7. Dimethyl Urea OR 1. 1,3-Dimethyl Xanthine Sodium Salt (Crude Sodium Theophylline) 2. Activated Carbon	0.93 kg 0.49 kg 0.35 kg 1.37 kg 0.64 kg 0.48 kg 0.83 kg 1.38 kg 0.100 kg

2.	A43	Chemical Products: SION at Sl.No.A420	The norms covered by this entry is corrected to read as under: -
----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A 420	Theophylline	1 kg	1. Mono Chloro Acetic Acid 2. Sodium Cyanide 3. MIBK 4. Acetic Anhydride 5. Sodium Nitrite 6. Formic Acid 7. Dimethyl Urea OR 1. 1,3-Dimethyl Xanthine Sodium Salt (Crude Sodium Theophylline) 2. Activated Carbon	0.93 kg 0.49 kg 0.35 kg 1.37 kg 0.64 kg 0.48 kg 0.83 kg 1.38 kg 0.100 kg

3.	A43	Chemical Products: SION at Sl.No.A424	The description of Import Item '2-Methyl, 4,5 Nitro Imidazole' at Sl. No. 1 is amended to read as under: - "2-Methyl, 5 Nitro Imidazole"
----	-----	--	--

4.	A143	Chemical Products: SION at Sl.No.A1709	<p>1. The description of the Export Item is amended to read as under:- “Rubber Hoses of different dimensions having net content of Rubber not more than 0.49 MT”</p> <p>2.The following footnotes are incorporated below the SION entry:-</p> <p>Note 1. In case of variation of Rubber content per MT of export, import item No. 1 may be allowed with 5% wastage. The quantity of import items from Sr. No. 2 to 6 can be allowed by adopting the following formula: $A \times 0.49 / B \text{ MT}$ Where “A” = Quantity allowed for One MT of export under the above SION Where “B” = Net content of Rubber in MT per MT of export item.</p> <p>Note: 2. Whenever Rubber Hose is reinforced with Polyester Fabric, Polyester Filament Yarn may be allowed on the basis of 1.05 MT per MT content in the export.</p> <p>Note: 3. Wherever the applicant intend to import Rubber Compound instead of Rubber and Chemicals, the following Norms may be adopted:</p> <p>A. Relevant Rubber Compound- 1.05 MT/MT content in export item.</p> <p>B. Polyester Filament Yarn of Relevant Denior – 1.05 MT/MT content in export item.</p>
----	------	---	---

3455 GI/06-3

5.	A170	Chemical Products: SION at Sl.No.A1962	The Import Item and Quantity appearing at Sl. No. 1 of the SION entry, i.e., 'Crude Rapeseed Fatty Acid ---1.145 kg' is amended to read as under: - "1(a) Rapeseed Fatty Acid-----1.145 kg OR 1(b) Rapeseed Oil-----1.179 kg"
6.	C121	Engineering Products: SION at Sl.No.C948	The description of the export product is amended to read as under:- "Plastic Injection/Extrusion Mould/Dies/Cavities/Punches/ Housing/Inserts made of Alloy Steel /Tool Steel"
7.	C173	Engineering Products: SION at Sl.No.C1289	The following item is added in the list of Misc. items at Sl. No. 6 of Import Items within the existing value limit of 6% of FOB value of export: "Lubricating Oil"
8.	C173	Engineering Products: SION at Sl.No.C1290	The following item is added in the list of Misc. items at Sl. No. 6 of Import Items within the existing value limit of 6% of FOB value of export: "Lubricating Oil"

9.	C174	Engineering Products: SION at Sl.No.C1291	The following item is added in the list of Misc. items at Sl. No. 6 of Import Items within the existing value limit of 6% of FOB value of export: “Lubricating Oil”
----	------	--	--

10.	C174	Engineering Products: SION at Sl.No.C1292	The following item is added in the list of Misc. items at Sl. No. 6 of Import Items within the existing value limit of 6% of FOB value of export: “Lubricating Oil”
-----	------	--	--

Annexure “B”

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3626	3a 7b Dihydroxy 5b Cholan 24-OIC Acid	1 kg	1) 3a Hydroxy- 7 Keto 5b Cholan 24 OIC Acid 2) Sodium Metal 3) Secondary Butanol	1.328 kg 1.86 kg 7.17 kg